



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 1977/आषाढ़ 8, 1899

No 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 1977/ASADHA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th June, 1977

**S.O. 426 (E)**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Andhra Pradesh in the Council of States by reason of the election of Shri K. Brahmananda Reddy to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No 100/CS-AP/77(1)]

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 29 जून 1977

का० प्रा० 426 (अ).—श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी के लोक सभा के लिए चुने लिए जाने के कारण, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०सं०-आ०प्र०/77(1)]

S.O. 427(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/77(1), dated 29 June, 1977.—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No 100/CS-AP/77(2)]

का० प्रा० 427 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०—आ०प्र०/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 16 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा एतद्वारा नियत करता है। 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

[सं० 100रा० सं०-आ०प्र०/77(2)]

**S.O. 428 (E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 4.00 p. m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-AP/77(3)]

**का० आ० 428 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०—आ० प्र०/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न में 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[स० 100 रा०स०—आ० प्र०/77(3)]

**S.O. 429 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby designates the Secretary, Andhra Pradesh Legislature to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-AP/77(4)]

**का० आ० 429 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०—आ० प्र० 77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव आंध्र प्रदेश विधान मंडल को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदामिहित करता है।

[स० 100, रा०स०/आ० प्र०/77(4)]

**S.O. 430 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature (Committees) to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AP/77(1), dated 29 June 1977, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-AP/77(5)]

**का० आ० 430 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०—आ० प्र० 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उप सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मंडल (समितियाँ) को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है।

[स० 100/रा०स०—आ० प्र०/77(5)]

**S.O. 431 (E)**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Assam in the Council of States by reason of the election of Shri Dev Kanta Borooah to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Assam to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No. 100/CS-AS/77(1)]

कांआ० 431 (अ) —श्री देवकात बरुआ के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में आसाम राज्यों को प्रतिनिधित्व स्थानों में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग आसाम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व, उक्त अधिनियम के प्रौढ तद्विधान बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100 रा०स०—आसाम 77(1)]

**S.O. 432 (E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-AS/77(1), dated 29 June, 1977—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No 100/CS-AS/77(2)]

कांआ० 432(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०—आसाम/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); और तो मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) कर दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100 रा०स०—आसाम 77(2)]

**S.O. 433 (E)** —In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a. m. to 3.00 p. m. as the hours during which a poll shall if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AS/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-AS/77(3)]

**क्र० आ० 433(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०—आसाम 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100 रा०सं०—आसाम 77(3)]

**S.O. 434(E)**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Assam, hereby designates the Secretary, Assam Legislative Assembly, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AS/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-AS/77(4)]

**क्र० आ० 434(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, आसाम सरकार के परामर्श में, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—आसाम 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव आसाम विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदार्पित करता है।

[सं० 100 रा०सं०—आसाम 77(4)]

**S.O. 435(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Assam Legislative Assembly to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-AS/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions.

[No 100/CS-AS/77(5)]

**क्र० आ० 435(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—आसाम/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उप-सचिव, आसाम विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद् द्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100 रा०सं०—आसाम 77(5)]

**S.O. 436(E)**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Haryana in the Council of States by reason of the election of Shri Krishan Kant to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No. 100/CS-HR/77(1)]

**क्र० आ० 436(अ).**—श्री कृष्ण कान्त के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में हरियाणा राज्य को आबंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्वाचन आयोग हरियाणा विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के श्रौतसूची बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०सं०—हरि०/77(1)]

**S.O. 437(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HR/77(1), dated 29 June, 1977,—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No 100/CS-HR/77(2)]

**का० प्रा० 437(अ).** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं०/100 रा०सं०—हरि०/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार),
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०सं०—हरि०/77(2)]

**S.O. 438(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HR/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-HR/77(3)]

**का० प्रा० 438(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—हरि०/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा०सं०—हरि०/77(3)]

**S.O. 439(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Haryana hereby designates the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to be the Returning officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HR/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-HR/77(4)]

**का० आ० 439 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग हरियाणा सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं० हरि०/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, हरियाणा विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100 रा० सं० हरि० 77(4)]

**S.O. 440(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-HR/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No 100/CS-HR/77(5)]

**का० आ० 440 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—हरि०/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उप सचिव, हरियाणा विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसकी कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा० सं० हरि० 77(5)]

**S.O. 441(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Karnataka, in the Council of States by reason of the election of Shri T. A. Pai, to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Karnataka to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No. 100/CS-KT/1/77(1)]

**का० आ० 441 (अ)**—श्री टी० ए० पाई के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में कर्नाटक राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग कर्नाटक राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100 रा० सं० कर्ना० 1 77(1)]

**S.O. 442(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/4/77(1), dated 29 June, 1977:—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-KT/1/77(2)]

**का० आ० 442 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-कर्ना०/1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में,—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नम निदग्नों को संविधा की तारीख 7 जुलाई 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अर्ह्यिताएं वापस लन की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा०सं०-कर्ना०/1/77(2)]

**S.O. 443(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a. m. to 2.00 p. m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/1/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/1/77(3)]

**का० आ० 443(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-कर्ना०/1/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वार्द्ध से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा ।

[सं० 100/रा०सं०-कर्ना०/1/77(3)]

**S.O. 444(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Karnataka, hereby designates the Secretary, Karnataka Legislature to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/1/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/1/77(4)]



**का० आ० 444 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श में, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-कर्ना० 1/77(1) तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, कर्नाटक विधान मंडल को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-कर्ना० 1/77 (4)]

**S.O. 445(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Karnataka Legislature to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-KT/1/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-KT/1/77(5)]

**का० आ० 445 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-कर्ना० 1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान मंडल को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०स०-कर्ना० 1/77(5)]

**S.O. 446(E) —**Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Karnataka in the Council of States by reason of the election of Shri B. Rachalah to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Karnataka to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No. 100/CS-KT/2/77(1)]

**का० आ० 446 (अ).—**श्री बी० रचैयाह के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में कर्नाटक राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग कर्नाटक विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-कर्ना०/2/77(1)]

**S.O. 447(E).—**In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/2/77(1), dated 29 June, 1977—

(a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;

- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;  
 (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;  
 (d) 16 July, (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and  
 (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-KT/2/77(2)]

**का० आ० 447(अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं० कर्ना० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);  
 (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार),  
 (ग) अभ्यर्थिताये वापस लेने के अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);  
 (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 16 जुलाई, 1977 (शनिवार)  
 तथा  
 (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा० सं०—कर्ना०/2 77(2)]

**S O 448(E).—**In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10 00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-KT/2/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/2/77(3)]

**का० आ० 448(अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं० कर्ना० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100 रा० सं०—कर्ना०, 2/77(3)]

**S.O. 449(E).—**In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Karnataka, hereby designates the Secretary, Karnataka Legislature to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-KT/2/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/2/77(4)]

**का० आ० 449(अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग कर्णाटक सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—कर्णाटक 2 77(1), तारीख, 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, कर्णाटक विधान मंडल को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा० सं०—कर्ना०/2/77(4)]

**S.O. 450(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Karnataka Legislature to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/2/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-KT/2/77(5)]

**का० प्रा० 450(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०-कर्ना० 2, 77(1), तारीख, 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान मंडल को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करना है।

[सं० 100, रा०सं०-कर्ना० 2 77(5)]

**S.O. 451(E).**—Where a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri H. S. Narasiah, a member elected to the House from Karnataka, before the expiration of his term of office,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Karnataka to elect in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy before 20 July, 1977.

[No. 100/CS-KT/3/77(1)]

**का० प्रा० 451(अ).**—कर्नाटक से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री एच०एस० नरसियाह की अपनी पदावधि के अवमान के पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग कर्नाटक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100 रा०सं०-कर्ना० 3 77(1)]

**S.O. 452(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/3/77(1), dated 29 June, 1977,—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-KT/3/77(2)]

का० आ० 452(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं.—कर्ना० 3/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार),
- (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार), मतदान होगा। और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) दिया जाएगा।

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100 रा०सं.—कर्ना०/3/77(2)]

S.O. 453(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10 00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/3/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/3/77(3)]

का० आ० 453 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं.—कर्ना०/3/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय उम समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100 रा०सं./कर्ना० 3/77(3)]

S.O. 454(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Karnataka, hereby designates the Secretary, Karnataka Legislature, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/3/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KT/3/77(4)]

का० आ० 454(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग कर्नाटक सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं.—कर्ना०/3/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, कर्नाटक विधान मंडल को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदभारित करता है।

[सं० 100 रा०सं.—कर्ना०/3/77(4)]

S.O. 455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Karnataka Legislature, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/3/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-KT/3/77(3)]

का० आ० 455 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—कर्ना 3/77(2), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान सभल को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एनद्द्वारा नियुक्त करना है।

[स० 100 रा० सं०—कर्ना० 3 77(5)]

S.O. 456(E)—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Kerala in the Council of States by reason of the election of Dr. V. A. Seyid Muhamamad to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Kerala to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977.

[No 100/CS-KL/77(1)]

का० आ० 456 (अ)—डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में केरल राज्य की आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग केरल विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[स० 100/रा० सं०—केरल 77 (1)]

S.O. 457(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-KL/77(1), dated 29 June, 1977—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-KL/77(2)]

का० आ० 457 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—केरल 77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार) :

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम 9 जुलाई, 1977 (शनिवार); तारीख

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा मतदान होगा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा० सा०-केरल/77(2)]

**S.O. 458(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 9.00 a.m. to 2 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KL/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KL/77(3)]

**का०आ० 458 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सा०-केरल 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 9-00 बजे पूर्वाह्न में 2 00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[सं० 100 रा०सा०-केरल 77(3)]

**S.O. 459(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Kerala, hereby designates the Secretary, Kerala Legislative Assembly to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KL/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-KL/77(4)]

**का०आ० 459 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग केरल सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सा०-केरल/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिये सचिव, केरल विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदार्पित करता है ।

[सं० 100 रा०सा०-केरल 77(4)]

**S.O. 460(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Kerala Legislative Assembly, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KL/77(1), dated 29 June, 1977, in the Performance of his functions.

[No. 100/CS-KL/77(5)]

**का०आ० 460 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सा०-केरल 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए संयुक्त सचिव, केरल विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100 रा०सा०-केरल 77(5)]

**S.O. 461(E).**—Whereas the seat in the Rajya Sabha occupied by Shri Subramanian Swamy, a member elected thereto from Uttar Pradesh, has become vacant;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July 1977.

[No 100/CS-UP/4/76(1)]

**का० प्रा० 461(अ).**—उत्तर प्रदेश में राज्य सभा के लिए निर्वाचित एक सदस्य श्री मुब्रह्मण्यन स्वामी द्वारा राज्य सभा में ग्रहीत स्थान रिक्त हो गया है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे दुई रिक्त को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[स० 100, रा.स०-उ०प्र०, 4, 76(1)]

**S O 462(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/4/76(1), dated 29 June, 1977 —

- 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-UP/4/76(2)]

**का० प्रा० 462(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण, में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०उ०प्र०, 4 76(1), तारीख 29, जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार),
- (ग) अभ्यर्धिताए वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्वारा नियत करता है ।

[स० 100, रा०स०-उ०प्र० 4 76(2)]

**S.O. 463(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 a.m. to 3.30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/4/76(1), dated the 29 June 1977.

[No 100/CS-UP/4/76(3)]

का० आ० 463(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(1) तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10-30 बजे पूर्वाह्न से 3-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(3)]

S.O. 464(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/4/76(1), dated 29 June, 1977

[No 100/CS-UP/4/76(4)]

का० आ० 464(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(4)]

S.O 465(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/4/76(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions.

[No. 100-CS-UP/4/76(5)]

का० आ० 465(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(1) तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100 रा०सं-उ०प्र०/4/76(5)]

S.O. 466(E).—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Uttar Pradesh in the Council of States by reason of the election of Shri Raj Narain to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977

[No 100/CS-UP/1/77(1)]

का० आ० 466(अ).—श्री राजनारायण के लोक सभा के लिए चुन लिये जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1952 की धारा 69 की उपधारा (2) के



उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिये जाने के रिणामस्वरूप राज्य सभा में उत्तरप्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों एक रिक्त हो गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्तियों को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाए गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं 100/रा० सं०-उ० प्र०/1, 77(1)]

**S.O. 467(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/1/77(1), dated 29 June, 1977—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations,
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-UP/1/77(2)]

का० आ० 467(अ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र० 1 77(1) तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार),
- (ख) नामनिर्देशन की समीक्षा की तारीख : 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यथिताएँ वापस लेने की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); और तो मतदान होगा :
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) कर दिया जाएगा .

एतद्वारा नियत करना है ।

[सं 100/रा० सं०, उ० प्र०/1/77(2)]

**S.O. 468(E)**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 a.m. to 3.30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/1/77(1), dated 29 June, 1977.

[No. 100/CS-UP/1/77(3)]

का० आ० 468 (अ). लोक सभा प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र०/1, 77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के

लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं० 100, रा० सं०—उ० प्र०, 1/77(3)]

**S.O. 469(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/1/77(1), dated 29 June, 1977.

[No 100/CS-UP/1/77(4)]

**का० प्रा० 469 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—उ० प्र०/1 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं० 100, रा० सं०—उ० प्र०, 1/77(4)]

**S.O. 470(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/1/77(1) dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-UP/1/77(5)]

**का० प्रा० 470 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100, रा० सं०—उ० प्र०/1, 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100 रा० सं०—उ० प्र०, 1 77(5)]

**S.O. 471(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Uttar Pradesh in the Council of States by reason of the election of Shri O. P. Tyagi to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 20 July, 1977.

[No 100/CS-UP/2/77(1)]

**का० प्रा० 471(अ).**—श्री ओ० पी० त्यागी के लोक सभा के लिए चुन लिये जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्त हो गई है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं. 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(1)]

**S O 472(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/2/77(1), dated 29 June 1977 —

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No 100/CS-UP/2/77(2)]

**का०आ० 472 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की सवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं. 100/रा०सं०-उ०प्र० 2 77(2)]

**S O. 473(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10 30 a.m. to 3 30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/2/77(1), dated 29 June 1977.

[No 100/CS-UP/2/77(3)]

**का०आ० 473 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(3)]

**S.O. 474(E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/2/77(1), dated 29 June, 1977

[No 100/CS-UP/2/77(4)]

**का०आ० 474 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(4)]

**S.O. 475(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/2/77(1) dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-UP/2/77(5)]

**का० आ० 475 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-उ०प्र० 2 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए अवर सचिव उत्तर प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर की उमके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 2 77(5)]

**S.O. 476(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Uttar Pradesh in the Council of States by reason of the election of Shri Chandra Sekhar to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20th July, 1977.

[No. 100/CS-UP/3/77(1)]

**का०आ० 476 (अ)**—श्री चन्द्र शेखर के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, राज्य सभा में उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए, तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के सपब धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे ।

[सं० 100 रा०सं०-उ०प्र० 3 77(1)]

**S.O. 477(E)**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/3/77(1), dated 29th June, 1977—

- (a) 6th July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7th July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9th July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16th July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20th July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No 100/CS-UP/3/77(2)]

**का० आ० 477(अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—उ०प्र०/3 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); तथा मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) कर दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है ।

[स० 100 रा० सं०—उ०प्र०/3 77(2)]

**S.O. 478(E)**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 A.M. to 3.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/3/77(1), dated 29th June, 1977,

[No 100/CS-UP/3/77(3)]

**का० आ० 478(अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०—उ०प्र०/3/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[स० 100 रा० सं०—उ०प्र० 3 77(3)]

**S.O. 479(E)**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/3/77(1), dated 29th June, 1977.

[No 100/CS-UP/3/77(4)]

का० आ० 479(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परमर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०—उ० प्र० 3 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं० 100 रा०सं०—उ० प्र० 3 77(4)]

S.O. 480(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/3/77(1), dated 2<sup>nd</sup> June, 1977 in the performance of his functions.

[No 100/CS-UP/3/77(5)]

का० आ० 480(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा० सं०—उ० प्र० 3 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100 रा०सं०—उ० प्र० 3 77(5)]

S.O. 481(E).—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of Uttar Pradesh in the Council of States by reason of the election of Shri Gode Murahari to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20th July, 1977.

[No. 100/CS-UP/4/77(1)]

का० आ० 481(अ) —श्री गोडे मुराहरी के लोक सभा के लिए चुन लिए जाने के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, राज्य सभा में उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हट्टे रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 के पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100 रा०सं०—उ० प्र० 4 77(1)]

S.O. 482(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby

appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/4/77(1), dated 29th June, 1977 —

- (a) 6th July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7th July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9th July, 1977 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 16th July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 20th July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-UP/4/77(2)]

का० आ० 482(प्र).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०-उ०प्र० 4 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की सवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार);  
मतदान होगा और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)  
दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है।

[स० 100 रा०स०-उ०प्र० 4 77(2)]

S.O. 483(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 A.M. to 3.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/4/77(1), dated 29th June, 1977.

[No. 100/CS-UP/4/77(3)]

का० आ० 483(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०-उ०प्र० 4 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[स० 100 रा०स०-उ०प्र० 4 77(3)]

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/4/77(1), dated 29th June, 1977.

[No. 100/CS-UP/4/77(4)]

**का० प्रा० 484(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं—उ०प्र०/4 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को एतद्द्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा०सं—उ०प्र०/4 77(4)]

**S.O. 485(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-UP/4/77(1), dated 29th June, 1977, in the performance of his functions

[No 100/CS-UP/4/77(5)]

**का० प्रा० 485(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं—उ० प्र० '4' 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर की उमके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं० 100/रा०सं—उ०प्र०/4 77(5)]

**S.O. 486(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the seats allotted to the State of West Bengal in the Council of States by reason of the election of Shri Krishna Bahadur Chettri to the House of the People and the consequent vacation by him of his seat in the Council of States in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 69 of the Representation of the People Act, 1951;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 147 of the said Act, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of West Bengal to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20th July, 1977

[No 100/CS-WB/77(1)]

**का० प्रा० 486(अ).**—श्री कृष्ण बहादुर चेत्री के लोक सभा के लिए चुने लिए ज के कारण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में पश्चिमी बंगाल राज्य को आवंटित स्थानों में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्घीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/रा० सं०-प० ब०/77(1)]



**S.O. 487(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-WB/77(1), dated 29th June, 1977:—

- (a) 6th July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7th July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9th July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16th July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 20th July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No 100/CS-WB/77(2)]

**का० आ० 487(अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-प० बं०/77 (1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की पंजीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (ख) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो 16 जुलाई 1977 (शनिवार); मतदान होगा और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) कर दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/रा०सं०-प० बं० 77(2)]

**S.O. 488(E)**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-WB/77(1), dated 29th June, 1977.

[No 100/CS-WB/77(3)]

**का० आ० 488(अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा सं०-प० बं०/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं० 100/रा०सं०-प० बं०/77(3)]

**S.O. 489(E)**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of West Bengal, hereby designates the Secretary, West Bengal Legislative Assembly to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-WB/77(1), dated 29th June, 1977.

[No. 100/CS-WB/77(4)]

**का० आ० 489(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-प० बं०/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा को एतद्द्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं०-प० बं०/77(4)]

**S.O. 490(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-WB/77(1), dated 29th June 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-WB/77(5)]

**का० आ० 490(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-प० बं० 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उप सचिव, बंगाल विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा० सं०-प० बं०/77(5)]

**S.O. 491(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Virendra Kumar Sakhalecha, a member elected to the Council of States from Madhya Pradesh, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977 (Wednesday).

[No. F 100/CS-MP/1/77(1)]

**का० आ० 491(अ).**—मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा द्वारा अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा० सं०-प० प्र० 1/77(1)]

**S.O. 492(E)**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No 100/CS-MP/1/77(1), dated 29th June, 1977.—

(a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the Scrutiny of nominations;

- (c) 9 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidates;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 20 July, 1977 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-MP/1/77(2)]

**क्रा० प्रा० 492(अ)** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-म० प्र० 11/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में:—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); और मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 20 जुलाई, 1977 (बुधवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा० स०-म० प्र० 1/77(2)]

**S.O. 493(E)** —In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/1/77(1), dated 20 June, 1977.

[No. 100/CS-MP/1/77(3)]

**क्रा० प्रा० 493—(अ)** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-म० प्र० 1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा० स०-म० प्र० 1/77(3)]

**S.O. 494(E)** —In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby designates the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/1/77(1), dated 20 June, 1977.

[No. 100/CS-MP/1/77(4)]

**क्रा० प्रा० 494(अ)** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-म० प्र० 1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य

सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना है ।

[सं० 100 रा०सं०-म०प्र० 1 77(4)]

**S.O. 495(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Special Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/1/77(1) dated 29th June, 1977, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MP/1/77(5)]

**का०आ० 495(अ)** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०सं०-म०प्र०/1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए विशेष सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करना है ।

[सं० 100/रा०सं०-म०प्र०/1/77(5)]

**S.O. 496(E).**—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Nilomani Routaray, a member elected to the Council of States from Orissa before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Orissa to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 20 July, 1977 (Wednesday).

[No. 100/CS-OR/1/77(1)]

**का०आ० 496(अ)** —उड़ीसा के राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री नीलामोनी राउटर द्वारा अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व त्याग-पत्र दे दिए जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उड़ीसा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे व्यक्ति को भरने के लिए तारीख 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100 रा०सं०-उड़ीसा 1 77(1)]

**S.O. 497(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-OR/77(1), dated 29 June, 1977—

- (a) 6 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) 7 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 9 July 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 16 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall if necessary, be taken; and

(e) 20 July, 1977 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed.

[No 100/CS-OR/1/77(2)]

का०आ० ३९७ (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०-उड़ीसा 1.77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 6 जुलाई, 1977 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की सर्वेक्षा की तारीख 7 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार),
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 9 जुलाई, 1977 (शनिवार),
- (घ) वह तारीख जिसका, यदि आवश्यक हो तो 16 जुलाई, 1977 (शनिवार), तथा मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर 20 जुलाई, 1977 (बुधवार) दिया जाएगा

एतद्वारा नियत करना है ।

[स० 100 रा०स०-उड़ीसा 1.77(2)]

S O 498(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 2.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-OR/1/77(1), dated 29 June, 1977.

[No 100/CS-OR/1/77(3)]

का०आ० 498 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०-उड़ीसा 1.77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक का समय 3 सप्ताह के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[स० 100 रा०स०-उड़ीसा 1.77(3)]

S.O. 499(E) —In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Orissa, hereby designates the Secretary, Orissa Legislative Assembly, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-OR/1/77(1), dated 29 June, 1977

[No. 100/CS-OR/1/77(4)]

का०आ० 499 (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100 रा०स०-उड़ीसा 77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उड़ीसा विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[स० 100 रा०स०-उड़ीसा 1.77(4)]

**S O. 500(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Assistant Secretary, Orissa Legislative Assembly, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-OR/1/77(1), dated 29 June, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-OR/1/77(5)]

By order,  
A. N. SEN, Secy.

**का०सा० 500 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100-रा०स०-उड़ीसा/1/77(1), तारीख 29 जून, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सहायक सचिव, उड़ीसा विधान सभा को, रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[स० 100/रा०स०-उड़ीसा/1/77(5)]

आदेश से,  
ए० एन० सैन, सचिव,

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटों रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977